



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2015/वैशाख 31, 1937

No. 327]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2015/VAISAKHA 31, 1937

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2015

सा.का.नि. 411(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (डाक सहायक एवं छंटाई सहायक) (समूह 'ग' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2011; डाक विभाग (डाक सहायक, बचत बैंक नियंत्रण/आंतरिक जांच संगठनों में डाक सहायक) (समूह 'ग' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2012; तथा डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सर्किल एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में, डाक सहायक, समूह 'ग' पद भर्ती नियमावली, 2014 को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डाक सहायक और छंटाई सहायक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (डाक सहायक और छंटाई सहायक समूह 'ग' अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2015 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान** :— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे जो कि उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि** :— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हताएं** :— वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेंगे।

- शिथिल करने की शक्ति** :— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेंगी।

6. **व्यावृत्ति** :—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. डाक सहायक और छंटाई सहायक (विदेश डाक संगठन से भिन्न अन्य डाकघरों में)	120291* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ग', (अराजपत्रित अननुसूचितवर्गीय)	5200—20200 रु. वेतन बैंड — 1 व 2400/— रु. ग्रेड वेतन	चयन	उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा के लिए समय-समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार	उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा के लिए समय-समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार	नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेसन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेसन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति / आमेसन किया जाएगा।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है।	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	<p>(क) (i) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा पदों का 50 प्रतिशत और जिसके न हो सकने पर</p> <p>(ii) निम्नलिखित शर्तों पर भर्ती डिबीजन अथवा यूनिट के ग्रामीण डाक सेवकों की सीधी भर्ती द्वारा उन रिक्तियों को ऐसे ग्रामीण डाक सेवकों* में से संबंधित परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा जो संबंधित वर्ष की अप्रैल की 1 तारीख को भरी नहीं गई हैं:</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 10+2 कक्षा अथवा 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा पूरी की हो;</p> <p>(ख) उन्हें अधिकतम 30 वर्ष का होना चाहिए (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा अधिसूचित विभिन्न प्रवर्गों के लिए शिथिलनीय) जिसके न हो सकने पर</p> <p>(iii) सेना डाक सेवा में नियुक्ति के लिए डाकिया/मेल गार्ड/डिस्पैच राइडर/बहुकार्य कर्मचारिवृंद संवर्ग से सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से तथा रिक्ति वाले वर्ष की पहली अप्रैल को निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने पर भर्ती डिबीजन अथवा यूनिट के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा उम्मीदवारों का चयन:</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से 10+2 कक्षा अथवा 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और न्यूनतम पांच वर्षों की सेवा पूरी की हो;</p> <p>(ख) उन्हें अधिकतम 30 वर्ष का होना चाहिए (समय-समय पर भारत सरकार द्वारा यथा</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा:</p> <p>1. संबंधित यूनिट/डिबीजन में 5200—20200 रु. + 2000 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में डाकिया/मेल गार्ड — ग्रेड में तीन वर्षों की नियमित सेवा।</p> <p>2. संबंधित यूनिट/डिबीजन में 5200—20200 रु. + 1900 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में डिस्पैच राइडर — ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसके अंतर्गत नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पद पर की गई नियमित सेवा भी है।</p> <p>3. संबंधित यूनिट/डिबीजन में 5200—20200 रु. + 1800 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में बहुकार्य कर्मचारिवृंद ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसके अंतर्गत नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पर पर की गई नियमित सेवा भी है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):—</p> <p>(i) वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर/ अधीक्षक डाकघर — अध्यक्ष</p> <p>(ii) दो समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी — सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

	<p>अधिसूचित विभिन्न प्रवर्गों के लिए शिथिलनीय है) जिसके न हो सकने पर</p> <p>(ग) डाक विभाग / सेना डाक सेवा द्वारा निर्धारित स्वस्थता मानदंडों के अनुसार चिकित्सा आधार पर स्वस्थ होना चाहिए</p> <p>(घ) सेना डाक सेवा में तब तक कार्य करने का इच्छुक हो जब तक सेना डाक सेवा में उनकी सेवाएं अपेक्षित हों, जिसके न हो सकने पर</p> <p>(iv) आगामी वर्ष की सीधी भर्ती।</p> <p>* ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा से बाहर हैं जिसके कारण उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा होगी।</p> <p>(ख) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा</p> <p>स्पष्टीकरण :- नियमित कर्मचारियों और ग्रामीण डाक सेवकों के लिए विभागीय परीक्षा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर आवेदकों की लघु सूची तैयार करने के मानदंड, पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न आदि के संबंध में जारी अनुदेशों के द्वारा नियंत्रित होगी।</p>			
--	--	--	--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुम्बई में विदेश डाक संगठनों में डाक सहायक और छंटाई सहायक	457*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ग', (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	5200-20200 रु. वेतन बैंड - 1 व 2400/- रु. ग्रेड वेतन	चयन	उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा के लिए समय-समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार	उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा के लिए समय-समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार	नहीं

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	<p>(क) (i) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा पदों का 50 प्रतिशत, जिसके न होने पर,</p> <p>(ii) आगामी वर्ष की सीधी भर्ती।</p> <p>(ख) सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत</p> <p>स्पष्टीकरण :- प्रोन्नति के लिए परीक्षा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर आवेदकों की लघु सूची तैयार करने के मानदंड, पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न आदि के संबंध में जारी अनुदेशों के द्वारा नियंत्रित होगी।</p>	<p>प्रोन्नति द्वारा:</p> <p>1. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200-20200 रु. + 1900 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में डिस्पैच राइडर - ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसके अंतर्गत नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पद पर की गई नियमित सेवा भी है।</p> <p>2. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200-20200 रु. + 1800 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में बहुकार्य कर्मचारिवृद्ध ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसके अंतर्गत नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पद पर की गई नियमित सेवा भी है।</p>	<p>विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):-</p> <p>(i) निदेशक, डाक सेवा - अध्यक्ष</p> <p>(ii) दो समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी - सदस्य</p>	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. डाक सहायक (बचत बैंक नियंत्रण और आंतरिक जांच संगठन)	3863*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ग', (अराजपत्रित अननुसचिवीय)	5200-20200 रु. वेतन बैंड - 1 व 2400/- रु. ग्रेड वेतन	चयन	उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा के लिए समय-समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार	उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा के लिए समय-समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार	नहीं

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	सीधी भर्ती	लागू नहीं	ग्रुप 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):— (i) निदेशक, डाक सेवा – अध्यक्ष (ii) दो समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. डाक सहायक (सर्किल और क्षेत्रीय कार्यालय)	4464*(2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, ग्रुप 'ग', (अराजपत्रित अननुसूचितवर्गीय)	5200–20200 रु. वेतन बैंड – 1 व 2400/- रु. ग्रेड वेतन	चयन	उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा के लिए समय-समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार	उच्चतर माध्यमिक स्तर (10+2) परीक्षा के लिए समय-समय पर जारी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अधिसूचना के अनुसार	नहीं

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
दो वर्ष	(क) (i) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा पदों का 25 प्रतिशत, जिसके न होने पर (ii) आगामी वर्ष की सीधी भर्ती द्वारा। (ख) सीधी भर्ती द्वारा 75 प्रतिशत स्पष्टीकरण :— प्रोन्नति के लिए परीक्षा, डाक विभाग द्वारा समय-समय पर आवेदकों की लघु सूची तैयार करने के मानदंड, पाठ्यक्रम और परीक्षा के पैटर्न आदि के संबंध में जारी अनुदेशों के द्वारा नियंत्रित होगी।	प्रोन्नति द्वारा: 1. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200–20200 रु. + 1900 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में डिस्पैच राइडर – ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसके अंतर्गत नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पद पर की गई नियमित सेवा भी है। 2. संबंधित यूनिट/डिवीजन में 5200–20200 रु. + 1800 रु. के ग्रेड वेतन के वेतन बैंड-1 में बहुकार्य कर्मचारिवृंद ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा के साथ जिसके अंतर्गत नियमित आधार पर तत्कालीन समूह 'घ' पर की गई नियमित सेवा भी है। नोट: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 (वह तारीख जिससे छठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया है) से नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर समनुरूप वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए):— (i) वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर/ अधीक्षक डाकघर – अध्यक्ष (ii) दो समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. 4-5/2015-एसपीबी-1]

एन. टी. पेटे, निदेशक (एसपीएन)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY**(Department of Posts)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 21st May, 2015

G.S.R. 411(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistant) (Group 'C' Non-Gazetted), Recruitment Rules, 2011; the Department of Posts (Postal Assistant in Savings Bank Control and Internal Check Organisations Group 'C' Non-Gazetted posts) Recruitment Rules, 2012; and the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Posts, Circle and Regional Offices, Postal Assistant, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2014 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Postal Assistant and Sorting Assistant in the Department of Posts, Ministry of Communications and Information Technology, namely :—

1. Short title and Commencement.—(1) These rules may be called the Department of Posts (Postal Assistant and Sorting Assistants Group 'C' Non-Gazetted) Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, their classification and Pay Band and Grade Pay/Pay Scale.—The number of Posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

- (a) who, has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to Relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-serviceman, other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Postal Assistant and Sorting Assistant (in offices other than Foreign Post Organisation).	120291* (2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted-Ministerial).	Rs.5200-20200 PB-I Grade Pay of Rs. 2400/-	Selection.	As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Higher Secondary Level (10+2) Examination.	As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Higher Secondary Level (10+2) Examination.	No

Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two Years	(A) (i) 50% of the posts by promotion through a Limited Departmental Competitive Examination, failing which by (ii) direct recruitment of Gramin Dak Sevaks* of the recruiting division or unit on fulfilling the following conditions, as on	Promotion: 1.Postman/Mail Guard, in the Pay Band 1 of Rs. 5200-20200 +Grade Pay of Rs. 2000/- of the concerned	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): (i) Senior Superintendent of Post Offices/Superintendent	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

<p>the 1st day of April of the year to which the vacancy(ies) pertain to, on the basis of examination limited to such Gramin Dak Sevaks:</p> <p>(a) 10+2 standard or 12th class pass from a recognized University/Board and have put in a minimum service of five years;</p> <p>(b) Should be within 30 years of age (relaxable for different categories as notified by the Government of India from time to time.);</p> <p>failing which</p> <p>(iii) For joining Army Postal Service, selection of candidates through a Limited Departmental Competitive Examination from Postman/Mail Guard/Despatch Rider/Multi Tasking Staff cadres and direct recruitment on the basis of competitive examination restricted to the Gramin Dak Sevaks of the recruiting Division or Unit on fulfilling the following conditions, as on the 1st day of April of the year to which the vacancy(ies) pertain:</p> <p>(a) 10+2 standard or 12th class pass from a recognized University/Board and have put in a minimum service of three years;</p> <p>(b) Should be within 30 years of age (relaxable for different categories as notified by the Government of India from time to time.);</p> <p>(c) Found medically fit as per the fitness criteria fixed by the Department of Posts/APS from time to time;</p> <p>(d) Willing to serve in APS till his/her services are required in the APS;</p> <p>failing which by</p> <p>(iv) Direct recruitment of next year.</p> <p>*Gramin Dak Sevaks are holder of Civil Posts but they are outside the regular Civil Service due to which their appointment will be by direct recruitment.</p> <p>(B) 50% by direct recruitment.</p> <p>Explanation.—Departmental examinations for regular employees and for Gramin Dak Sevaks shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria of the applicants, syllabus and pattern of test etc. from time to time.</p>	<p>Unit/Division with three years of regular service in the Grade.</p> <p>2. Despatch Rider in the Pay Band 1 of Rs. 5200-20200 +Grade Pay of Rs. 1900/- of the concerned</p> <p>Unit/Division with five years of regular service in the Grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D' post on regular basis.</p> <p>3. Multi Tasking Staff, in the Pay Band 1 of Rs. 5200-20200 +Grade Pay of Rs. 1800/-, of the concerned</p> <p>Unit/Division with five years of regular service in the Grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D' post on regular basis.</p>	<p>of Post Offices</p> <p>-Chairman</p> <p>(ii) Two Group 'B' (Gazetted) Officers -Members.</p>	
--	---	---	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2. Postal Assistant and Sorting Assistant in the Foreign Post Organisations in Delhi, Kolkata, Chennai and Mumbai.	457* (2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted-Ministerial)	Rs. 5200-20200 PB-I Grade Pay of Rs. 2400/-	Selection	As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Higher Secondary Level (10+2) Examination.	(As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Higher Secondary Level (10+2) Examination.	No

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two Years	<p>(A) (i) 50% of the posts by promotion through a Limited Departmental Competitive Examination, failing which by</p> <p>(ii) Direct recruitment of next year.</p> <p>(B) 50% by direct recruitment.</p> <p>Explanation.—The examinations for promotion shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria of the applicants, syllabus and pattern of test etc. from time to time.</p>	<p>Promotion:</p> <p>1. Despatch Rider, in the Pay Band 1 of Rs. 5200-20200 +Grade Pay of Rs. 1900/- of the concerned Unit/Division with five years of regular service in the Grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D' post on regular basis.</p> <p>2. Multi Tasking Staff, in the Pay Band 1 of Rs. 5200-20200 +Grade Pay of Rs. 1800/-, of the concerned Unit/Division with five years of regular service in the Grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D' post on regular basis.</p>	<p>Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):</p> <p>(i) Director Postal Services -Chairman</p> <p>(ii) Two Group 'B' (Gazetted) Officers -Members.</p>	<p>Consultation with Union Public Service Commission not necessary</p>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3. Postal Assistant (Savings Bank Control and Internal Check Organisations).	3863* (2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted-Ministerial).	Rs. 5200-20200 PB-I Grade Pay of Rs. 2400/-	Selection	As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Higher Secondary Level (10+2) Examination.	(As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Higher Secondary Level (10+2) Examination.	No

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two Years	Direct Recruitment.	Not applicable	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): (i) Director Postal Services -Chairman (ii) Two Group 'B' (Gazetted) Officers -Members.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4. Postal Assistant (Circle and Regional Offices).	4464* (2015) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C' (Non-Gazetted-Ministerial).	Rs. 5200-20200 PB-I Grade Pay of Rs. 2400/-	Selection	As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Higher Secondary Level (10+2) Examination.	(As per notification issued by Staff Selection Commission from time to time for Higher Secondary Level (10+2) Examination.	No

(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Two Years	(A) (i) Twenty five per cent of the posts by promotion through a Limited Departmental Competitive Examination, failing which by (ii) Direct recruitment of next year. (B) Seventy five per cent by direct recruitment. Explanation. —The examinations for promotion shall be governed by the instructions issued by the Department of Posts regarding the short listing criteria of the applicants, syllabus and pattern of test etc. from time to time	Promotion: Multi Tasking Staff in pay band-I of Rs. Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800, of the concerned Circle Office or Regional Office with five years regular service in the grade including any regular service put in the erstwhile Group 'D'.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): (i) Director Postal Services -Chairman (ii) Two Group 'B' (Gazetted) Officers -Members.	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 4-5/2015-SPB-I]

N. T. PAITE, Director (SPN)